



SEE MORE JESUS • WANTTOSEEMORE.COM

अंत ताई सहन करो — स्ट्रॉन्स नंबर सागे एक बाइबल अध्ययन

लागे रहो, टिके रहो, सहन करो — वो चाल जो दरवाजे के बाद चाले है

मौलिक बाइबिल सिद्धांत — यीशु मसीह का सुसमाचार

शुरूआती बात

बहुता संवाल उस दिन का जवाब मिल गया था जिस दिन कलीसिया का जन्म हुआ था। प्रभु यीशु मसीह पै अपने सारे मन तै बिश्वास कर। पाप तै मन फिराव, अर पाप तै मुड़ जा। यीशु मसीह के नाम पै बपतिस्मा ले, पापां की माफी वास्ते। पवित्र आत्मा का वरदान पा। यहीं बाहुता प्रवेश द्वार है, अर उन कदमां म्ह तै कोए भी छोड़ा नहीं जा सकता। पर जवाब बूह पै ही खतम नहीं होया। जो आयत बोल्ती है कै तीन हजार जणां का बपतिस्मा होया, वोहीं बोल्ती है कै वे प्रेरितां के उपदेश म्ह बणे रहे। यो अध्ययन जवाब नै उसके आखिरी तक ले जावै है: बण्या रहणा, मसीह म्ह टिक्या रहणा, अर आखिर तक धीरज धारण करणा।

यो अध्ययन बतावै है कै पहली कलीसिया रोज अर साथ म्ह किस म्ह बणी रही। यो अध्ययन बतावै है मसीह म्ह टिक्या रहणा, जिस तरह डाळी दाखलता म्ह टिकी रहवै है। यो अध्ययन बतावै है आखिर तक धीरज धारण करणा, गिरणा अर फेर उठणा, अर चेतावणी कै पाछै मुड़ना ना। यो अध्ययन बतावै है झूठे उपदेशकां, खुजल्याती कानां, अर दूसरे सुसमाचार के बारे म्ह। यो अध्ययन बतावै है क्रूस पर के चोर के बारे म्ह, जिसनै सारे वचन के मुकाबले तोल्या गया। जवाब यहीं खतम होवै है। पर चालणा जारी रहवै है। हमारा अध्ययन 'इसे जीवन म्ह जीणा' इस नए जीवन नै एक-एक दिन चलावै है।

तीन सवाल जिनका जवाब यो अध्ययन देवै सै:

3. के मुक्ति (साल्वेशन) बस एक शुरूआत सै, या फेर माणस नै मसीह के गैल जुड़या रहणा, बणे रहणा अर आखर ताहीं धीरज धरना भी जरूरी सै? कोई आदमी सच्चाई की आत्मा अर भ्रम की आत्मा म्ह फरक किस तरियां पिच्छान सके है जद कोई और सुसमाचार परचार होवै? के क्रूस पर के चोर यह साबित करै के आदमी नै बपतिस्मा लेणे की जरूरत नहीं?

ओपनिंग एंकर

A. प्रेरितों के काम 2:41 आखर जिननै उसके वचन पै बिश्वास करके बपतिस्मा लिया, अर उससे दिन तीन हजार माणसां कै करीबन उन म्ह मिलगे। **[G4342 proskartereo ■]** (42) जिननै पतरस के वचन पै बिश्वास करया, वे प्रेरितां तै शिक्षा लेन्दे, अर संगति राखदे, अर रोटी तोड़ण, अर प्रार्थना करण म्ह मग्न रहे।

जिननै उसका वचन खुशी तै मान लिया, उननै बपतिस्मा लिया --> वे प्रेरितां के उपदेश + संगति + रोटी तोड़ण + अर प्रार्थना म्ह लगातार बणे रहे।

(मेरे निजी विचार — देख्यो शब्द कितनी बार आवै सै "रोज"। वे रोज लागे रहवै थे। वे घर-घर जाके रोटी तोड़ते थे। वे एक-दूसरे नै रोज हौसला देवै थे। यो कोए इसा धर्म कोनी जो इतवार का एक घंटा अर बीच हफ्ते का एक घंटा हो — दो बेर सीट गरम करी अर बाकी की जिंदगी अपनी मरजी की। पहलली

मंडली इस ताहीं हर रोज, मिलके जिवै थी, अर प्रभु रोज उनमें उन ताहीं जोड़दा था जो उद्धार पावै थे। जो श्रद्धा अगली सभा ताहीं टाल दी जावै सै, वा श्रद्धा पाप के छल तै कठोर होके रहज्या सै। वो एक भेंट कोनी मांगदा। वो एक जिंदगी मांगदा सै।)

WITNESSES — ACTS 2:41-42 (added 2026-09-03): THE APOSTLES' DOCTRINE --> Ephesians 2:20 (a reasonable connection, not a verse stating it outright) + John 14:26. FELLOWSHIP --> 1 John 1:3 + Hebrews 10:25. BREAKING OF BREAD --> 1 Corinthians 11:23 + Luke 22:19. PRAYERS --> Acts 1:14 + Colossians 4:2.

VIII. लगातार बणे रहो — प्रेरितां का उपदेश, संगति, रोटी तोड़णा, प्रार्थनावां

B. प्रेरितों के काम 2:46 वे हरेक दिन एक मन होके मन्दर म्ह कठे होवै थे, घर-घर रोटी तोड़दे होए खुशी अर मन की सीधाई तै खाणा खावै थे, ⁽⁴⁷⁾ अर परमेसवर की जय-जयकार करै थे, अर सारे माणस उनतै राज्जी थे जो उद्धार पावै थे, उन ताहीं प्रभु हरेक दिन उन म्ह मिला देवै था।

वे हरेक दिन एक मन होके मन्दर म्ह कठे होवै थे --> उन ताहीं प्रभु हरेक दिन उन म्ह मिला देवै था.

C. 1 कुरिन्थियों 11:23 मन्त्रे थारे ताहीं जितनी शिक्षा दी सै वोए शिक्षा सै, जो मन्त्रे परमेसवर की ओड़ तै मिली थी, के प्रभु यीशु जिस रात पकड़ाया गया, रोटी लेई, ⁽²⁴⁾ अर परमेसवर का धन्यवाद करके उसनै तोड़ी अर कहा, “या मेरी देह सै, जो थारे खात्तर सै: मेरी यादगारी खात्तर न्यूए करया करो।” ⁽²⁵⁾ इसे तरियां उसनै खाणे के बाद अंगूर के रस का कटोरा भी लिया अर कहा, “यो कटोरा मेरे लहू म्ह नया करार सै: जिब कदे पीओ, तो मेरी यादगारी के खात्तर न्यूए करया करो।” ⁽²⁶⁾ क्यूँके जिब कदे थम या रोटी खाओ अर इस कटोरे म्ह तै पीओ सो, तो प्रभु की मौत नै जिब ताहीं वो न्ही आवै, प्रचार करदे रहो।

मैं प्रभु की ओड़ से पाया + यही मेरी देह है, जो थारे खात्तर तोड़ी जावै सै --> मेरी याद म्ह यही करो --> जब तक वो ना आवै, थम प्रभु की मौत का प्रचार करो सो।

D. यूहन्ना 6:54 जो मेरा माँस खावै अर मेरा लहू पीवै सै, अनन्त जीवन उस्से का सै, अर आखरी के दिनां म्ह मै उसनै दुबारै जिन्दा कर दिवुंगा।

जो मेरा माँस खावै अर मेरा लहू पीवै सै, अनन्त जीवन उस्से का सै --> अर आखरी के दिनां म्ह मै उसनै दुबारै जिन्दा कर दिवुंगा.

E. 1 यूहन्ना 1:9 जै हम अपने पाप नै परमेसवर के स्याम्ही मान ल्या, तो वो म्हारे पाप नै माफ करण म्ह भरोसेमन्द अर धर्मी सै, अर वो हमनै सारे अधर्म तै शुद्ध करै सै।

जै हम अपने पाप नै परमेसवर के स्याम्ही मान ल्या --> तो वो म्हारे पाप नै माफ करण म्ह भरोसेमन्द अर धर्मी सै, अर वो हमनै सारे अधर्म तै शुद्ध करै सै.

F. इब्रानियों 3:13 जिब भी थम पवित्र ग्रन्थ नै यो कहते सुणो, “आज का दिन” तो एक-दुसरे नै उत्साहित करते रहो, इसा ना हो पाप थारे ताहीं धोक्खा देवै, अर थम परमेसवर के खिलाफ जिद्दी हो जाओ।

जिब भी थम पवित्र ग्रन्थ नै यो कहते सुणो --> इसा ना हो पाप थारे ताहीं धोक्खा देवै, अर थम परमेसवर के खिलाफ जिद्दी हो जाओ.

IX. मसीह म्ह बणे रहो — बिश्वास म्ह लाग्या रहो

A. यूहन्ना 15:4 थम मेरै म्ह बणे रहो, अर मै थारे म्ह, जिस तरियां डाळी जै अंगूर की बेल म्ह बणी न्ही रहवै तो खुद तै कोनी फळ सकदी, उस्से तरियां थम भी जै मेरै म्ह बणे न्ही रहो तो कोनी फळ सकदे।” **[G3306 meno ■]** ⁽⁵⁾ मै अंगूर की बेल की ढाळ सूं अर थम डाळी सो। जो मेरै म्ह बण्या रहवै सै अर मै उस म्ह, वो घणाए फळ फळै सै, क्यूँके मेरै तै न्यारे पाटके थम कुछ न्ही कर सकदे।

जब तक तम मेरे म्ह बणे रहो नहीं --> मेरे बिना तम कुछ भी नहीं कर सकों।

B. कुलुस्सियों 1:23 जै थम मसीह म्ह बिश्वास करो सो, अर थारा बिश्वास उस घर की तरियां हो जो मजबूत नीम पै खड्या सै, अर उस सुसमाचार की आस नै ना छोड़ो, जिस ताहीं थमनै सुण्या सै, जिसका प्रचार दुनिया के माणसां म्ह करया गया सै, उसका मै, पौलुस, वचन का सुणण आळा बण्या।

अगर तूं बिश्वास म्ह जड़ जमाए अर स्थिर होके बण्या रहवै --> तो सुसमाचार की आशा तें मत हटियो।

C. 2 यूहन्ना 1:9 जै कोए माणस, मसीह नै जो शिक्षाएँ दी सै उसका पालन न्ही करदा, अर अपनी ओड़ तै उन शिक्षा म्ह कुछ और जोड़ै सै, तो उसकी परमेसवर के गैल साझेदारी कोनी, पर जो कोए उसकी दी गई शिक्षा का पालन करदा रह सै, उसकी पिता परमेसवर अर उसके बेटे यीशु मसीह के गैल साझेदारी सै। **[G3306 meno ■]**

जो कोए मसीह की शिक्षा म्ह बण्या रहवै सै --> उसके धौरे पिता अर बेटा दोनू सैं।

D. रोमियों 11:22 ज्यातै परमेसवर की दया अर कठोरता नै देख! जो अबिश्वासी माणसां खात्तर कठोरता अर थारे खात्तर दया सै, जै थम असलियत म्ह उसकी दया की हद म्ह न्ही बणे रहवोंगे, तो थारे ताहीं भी काट के अलग कर दिया जावैगा।

परमेश्वर की भलाई अर कठोरता नै देख --> जै तू उसकी भलाई में बण्या रहवै --> नहीं तो तू भी काट दिया जावैगा।

E. प्रकाशित वाक्य 3:15 के मै तेरे काम्मां नै जाणु सूं के तू उस पाणी की ढाळ सै, जो ना तो शीळा सै अर ना तात्ता, आच्छा था के तू इन म्ह तै एक होन्दा ⁽¹⁶⁾ क्यूँके तू गुणगुणा सै, अर ना शीळा अर ना तात्ता, मै तन्नै अपने मुँह म्ह तै उगळण पै सूं।

न ठंडा ना गरम --> क्यूँके तू कुसमकुसा (गुनगुना) है --> मैं तन्ने अपने मुँह से थूक दूँगा।

(मेरे निजी विचार — देख ले प्रभु ठाड्डे (गुनगुने) के साथ के करे सै। सिर्फ ठंडे के साथ नहीं, ठाड्डे के साथ भी — जिसके धोरे बस इतना ए धर्म हो सै के आराम तै रह ले, अर इतना नहीं के जिन्दा रहै — उसने वो अपने मुँह तै उगल देगा। उसके गेल्या जुड्या रहणा मतलब धागे के सहारे लटकणा कोनी, इतवार नै गरम अर बाकी सारे हफ्ते ठंडा। इसका मतलब सै जळणा। प्रभु कहवै सै, गरम रहणा ए भला सै, या फेर ठंडा भी ठीक सै, पर वो बीचला हाल जिसतै उसने जी मिचलावै सै, वो कोनी चाहिए। उस म्ह टिक्या रहै, अर उसने अपने धोरे जळदा राखण दे आखर तक।)

X. आखिर ताहीं धीरज धरो

A. मत्ती 24:13 पर जो अन्त ताहीं मेरे पै बिश्वास राखैगा, उस्से ताहीं बचाया जावैगा। [G5278 hupomeno ■]

पर जो अन्त ताहीं मेरे पै बिश्वास राखैगा --> उस्से ताहीं बचाया जावैगा।

B. प्रकाशित वाक्य 2:10 जो दुख तन्ने झेलणे होंगे, उनतै मत घबरा, क्यूँके देखो, शैतान अपने माणसां के जरिये थारे म्ह तै कितन्याँ ताहीं जेळखात्रे म्ह गेरैगा, ताके थम परखे जाओ, अर थारे ताहीं दस दिन तक क्लेश ठाणा पड़ैगा। जान देण तक बिश्वासी रह, तो मै थारी जीत के कारण ईनाम के तौर पै थमनै अनन्त जिन्दगी देऊँगा।

जो दुःख तू सहवैगा उन म्ह तै किसे तै भी मत डर --> मरण तक बफादार रहै --> मै तेरे नै जीवन का मुकुट दियुँगा।

C. 1 कुरिन्थियों 11:28 ज्यांतै माणस अपने-आप ताहीं जाँच लेवै अर इस्से तरियां तै इस रोटी म्ह तै खावै, अर इस कटोरे म्ह तै पीवै।

मानस अपने-आप ने जाँच ले --> अर इस तरियां वो उस रोटी ने खावै, अर उस प्याले तें पीवै।

D. Proverbs 24:16

एक धर्मी सात बार पड़े, और फेर उठ खड़ा हो जावै।

E. 1 यूहन्ना 2:1 हे मेरे प्यारे बाळकों, मै ये बात थारे ताहीं इस करके लिखूँ सूँ, के थम पाप ना करो; अर जै कोए पाप करै, तो परमेसवर पिता के धोरे म्हारा एक मददगार सै, यीशु मसीह जो धर्मी सै, जो म्हारे पापां की माफी खात्तर पिता तै बिनती करै सै।

अगर कोई मानस पाप करे तो --> म्हारा एक वकील बाप के गेल्या है, यीशु मसीह जो धर्मी है।

F. इब्रानियों 7:25 इस्से खात्तर जो यीशु के जरिये परमेसवर के धोरे आवै सै, वो उनका पूरा-पूरा उद्धार कर सके सै, क्यूँके वो उनके खात्तर बिनती करण ताहीं सारी हाण जिन्दा सै।

इस्से खात्तर जो यीशु के जरिये परमेसवर के धोरे आवै सै --> क्यूँके वो उनके खात्तर बिनती करण ताहीं सारी हाण जिन्दा सै।

G. Psalm 103:12

जितनी दूर पूरब पश्चिम तै है --> उतनी ही दूर उसने म्हारे अपराधां को म्हारे तै दूर कर दिया है।

H. इब्रानियों 8:12 मै उनकी दुष्टता की ओड़ दया करूँगा, अर उनके पापां नै दुबारा याद कोनी करूँगा।”

अर उनके पापां नै दुबारा याद कोनी करूँगा।

I. यूहन्ना 10:27 मेरी भेड़ मेरा बोल पिच्छाणै सै, मै उननै जानु सूँ, अर वे मेरे पाच्छे-पाच्छे चाल्लै सै (28) अर मै उन ताहीं अनन्त जीवन दियुँ सूँ। वे कदे नाश कोनी होवैगीं, अर कोए उननै मेरे हाथ तै खोस नही सकदा। (29) मेरा पिता, जिसनै उन ताहीं मेरे तै दिया सै, सारया तै बड़ड़ा सै, अर कोए उननै पिता के हाथां तै खोस कोनी सकदा।

मेरी भेड़ां मेरी आवाज सुणै हैं + वे मेरे पाच्छे चाल्लै हैं --> अर कोई मानस उन्हें मेरे हाथ म्ह छीन नई सकता।

J. Ezekiel 18:24

जद धर्मी अपनी धार्मिकता तै फिर जावै --> अपने उस पाप में जो उसने करया, उन्हीं में वो मरेगा।

K. Proverbs 26:11

जिस तरियां कुत्ता अपनी उलटी की तरफ मुड़ जावै सै --> उस्से तरियां मूरख अपनी मूर्खता की तरफ मुड़ जावै सै।

L. 2 पतरस 2:20 माणस इस दुनिया की बुराईयाँ तै भाज्जै सै जिब वो मसीह यीशु नै अपना उद्धारकर्ता मान लेवै सै, पर वे फेर तै बुरे काम करण लागै सै, अर वे बुरी चीज उन ताहीं काबू म्ह राखै सै, इब उनकी दशा जो के मसीह नै छोड़ देण तै सै, वो पैहल्दी दशा तै भी भुंड़ी सै, जिब उननै मसीह पै बिश्वास करया था। (21) मेरे कहण का मतलब यो सै, के परमेसवर उन माणसां ताहीं घणा दण्ड देवैगा जो मसीह ताहीं छोड़ देवै सै, उन माणसां तै ज्यादा जो उस ताहीं कदे नही अपनादे, उन खात्तर यो ठीक होन्दा के वो कदे नही जानते के धार्मिकता का जीवन किस तरियां जीणा सै, उन ताहीं बेरा सै के सही के सै, पर वो परमेसवर के हुकम नै कोनी मानते जो हम प्रेरितां नै उन ताहीं सिखाये सै। (22) उनपै ये दो कहावत सही बेठै सै, के कुत्ता अपनी उलटी नै चाटै सै, अर नुहाई होई सुरी कीचड़ म्ह लोटण के खात्तर फेर चली जावै सै।

फेर उस म्ह फंसग्या, अर हार गया --> उनकी आखर हालत पैहल तें भी माड़ी हो ज्या सै --> कुत्ता अपनी उलटी की ओड़ फेर मुड़ ज्या सै + जो सुअरनी नहाई थी वा फेर कीचड़ म्ह लोटण लाग ज्या सै।

M. मत्ती 7:22 न्याय के दिन घणखरे-ए माणस मेरे तै कहवैगें, ‘हे प्रभु, हे प्रभु, के हमने तेरे नाम तै भविष्यवाणी नही करी, के हमने तेरे नाम तै ओपरी आत्मायाँ ताहीं नही लिकाड्या, अर तेरे नाम तै घणोए अचम्भे के काम नही करे?’ (23) फेर मै उनतै खुलके कह दियुँगा, मन्ने थारे ताहीं कदे नही अपनाया। हे भुन्डे काम करण आळो, मेरे धोरे तै चले जाओ।”

हे प्रभु, हे प्रभु, क्या म्हेन तेरे नाम पै भविष्यवाणी नहीं करी? --> मैं तमने कदी नहीं जाण्या: मेरे कान्ने ते चल्या जाओ, हे कुकर्म करण वाळ्यो।

(मेरे निजी विचार — मसीह म्ह एक बालक कदे बाप के मना करण के बाद भी आग नै हाथ ला सकै सै। यो एक ईसे बाळक की ठोकर सै जो अभे सीख्या करै सै, अर बाप नै यो बात मालूम सै। एक सियाणे बेटे-बेट्टी नै इसे तै ज्यादा समझ होणी चाहिए। पर इस म्ह दया भी सै: जिब भी हम पाप करां सां, हमनै फेंक्या नही जावै। म्हारा एक वकील सै — यीशु मसीह जो धर्मी सै — जो सारी हाण जिन्दा सै अर म्हारी तरफा तै बाप के स्याम्ही सारी हाण बोल्या करै सै। तो हम फेर तै उठ खड़े होवां सां। एक धर्मी माणस सात बरी पड़ै सै अर फेर उठै सै। हम अपने-आप की जांच करां सां, जो करया उसनै मान लेवां सां, उस तै मुड़ जावां सां, अर फेर अपने बाप के काम-धाम पै लोट जावां सां, बीत्या होया बाद म्ह छोड़ दे सां — क्यूँके परमेश्वर पैहलही म्हारे पापां नै वा दूर करदिए सै जिथ्यांतक पूरब पश्चिम तै दूर सै, अर वो उननै फेर याद नही करदा। पर इस दया नै बहाना मत बणाओ। यहजेकेल दूसरा पहलू दिखावै सै: एक धर्मी माणस जो अपनी धार्मिकता तै मुड़ जावै अर अपने पाप म्ह मरै सै, वो अपनी पैहली धार्मिकता के करके नही बचैगा। पतरस भी नये नियम म्ह ईसी तस्वीर दिखावै सै, अर वो पुराणी कहावत नै कहके दिखावै सै: कुत्ता अपनी उलटी की तरफ लोट्या, नहाया होया सूअर फेर से चीखळ म्ह लोट्या — कोए जो प्रभु नै जाणके दुनिया की गंदगी तै बच निकळ्या, फेर उस म्ह वापस मुड़या, आखर म्ह पैहल्या तै भी ज्यादा बुरी हालत म्ह। अर यीशु उननै जो उसके नाम म्ह बुराई करी, कहवै सै, "मत्रे तनै कदे नही जाण्या।" अब इस तलवार की दोनु धार नै थाम्म लो, अर एक भी नै भोत्था मत होण दयो। प्रभु कहवै सै के कोए भी उसकी भेड़ां नै उसके हाथ तै छीण नही सकदा — ना कोए दुश्मन, ना कोए ताकत, ना कोए माणस। वा सुरक्षा सच्ची सै, अर वो उसकी पकड़ सै जो थाम्मै सै, म्हारी नही। पर देखो वो उन भेड़ां नै किसतरियां बतावै सै: वे उसकी आवाज सुणै सै, अर उसके पीछे चालै सै। वचन म्ह कदे कोए भेड़ नै उसके हाथ तै जोर से खींची नही दिखाई, वो नहाई होई नै अपनी मर्जी तै वापस चीखळ म्ह मुड़ती अर चालती दिखाई सै। पवित्रशास्त्र इन दोनु बातों नै थाम्मै सै — वा पकड़ जो तोड़ी नही जा सकदी, अर वा चेतावनी के मुड़ना ना — अर वो इननै एक सोगी सादे फामूले म्ह नही घोळ्दा, तो हम भी नही घोळंगे। जिब तू पड़ै, तो निराश मत हो: वो वकील सच्चा सै, अर घरां जाणा का रास्ता खुल्या सै। यो मत मानी लइयो के तू अपनी मर्जी तै वापस मुड़ सकै सै: वा चेतावनी भी सच्ची सै। पड़ो, पर उठो। उठो, अर आखरी ताहीं टिके रहो।)

XI. चौकस रहो — दूतां की सुणो, अर दूसरे सुसमाचार तै बचकै रहो

A. 1 यूहन्ना 4:6 हम परमेसवर के लोग सां। जो परमेसवर नै जाणै सै, वो म्हारी सुणै सै; जो परमेसवर नै नही जाणता वो म्हारी नही सुणदा। इस ढाळ हम सच की आत्मा अर भ्रम की आत्मा नै पिच्छाण लेवां सां।

जो परमेश्वर नै जाणै वो म्हारी सुणै --> इसे तै हम सच्चाई की आत्मा और भ्रम की आत्मा नै जाणै हां।

B. 1 गलातियों 1:8 पर जै म्हारे म्ह तै, या सुर्ग तै उतरया होया कोए सुर्गदूत भी उस सुसमाचार नै छोड़ जो हमनै थारे ताहीं सुणाया सै, कोए अलग सुसमाचार थारे ताहीं सुणावै, तो परमेसवर उस ताहीं श्राप देगा। (9) जिसा हमनै पैहल्या कहा सै, उसाए मै इब फेर कहूँ सूँ के उस सुसमाचार नै छोड़ जिस ताहीं थमनै मान्या सै, जै कोए अलग सुसमाचार सुणावै सै, तो श्रापित हो।

पर जै म्हारे म्ह तै, या सुर्ग तै उतरया होया कोए सुर्गदूत भी उस सुसमाचार नै छोड़ जो हमनै थारे ताहीं सुणाया सै --> तो परमेसवर उस ताहीं श्राप देगा।

(मेरे निजी विचार — या बात ध्यान म्ह राखो: जो हम मानां सूँ वो अगर सन्देशवाहकां के प्रचार करी होई बात तै मेल नही खावै, तो गलती हमारी सै, उनकी नही। उननै उस ताहीं देख्या, उसकी सुण्या, अर उस्से भेजे गए थे। जो कोए परमेश्वर की सुणै सै, वो उनकी सुणै सै। किसे गुरू नै प्रेरितां तै ऊँचा मानणा, धोखे की आत्मा की सुणण के बराबर सै।)

C. यहूदा 1:3 हे प्यारे बिश्वासी भाईयो, जिब मै उस नई जिन्दगी के बारें म्ह लिखण म्ह घणी मेहनत करण लागरया था, जो म्हारे ताहीं मसीह यीशु के जरिये परमेसवर तै मिलै सै, अर जिस म्ह हम सब साझीदार सां। तो मत्रे महसूस होया के मै इस चिट्ठी के जरिये थमनै उत्साहित करूँ, ताके थम अपने बिश्वास की बढ़ोतरी खात्तर और भी मेहनत करो, परमेसवर नै यो बिश्वास सारे माणसां ताहीं सदा खात्तर एके बार दे दिया सै, अर यो बदल्या नही जा सकदा। (4) क्यूँके परमेसवर का कहणा ना मानण आळे भोत-से झूठी शिक्षा देण आळे लोग चुपचाप म्हारे बिना जाणे म्हारै म्ह आ मिले सै, ये वो लोग सै जिनके बारें म्ह परमेसवर नै सदियाँ पैहले पवित्र ग्रन्थ म्ह कहा था, के उन ताहीं परमेसवर दण्ड देवैगा। वे परमेसवर के अनुग्रह के सन्देश नै बिगाड़ के उस ताहीं भोग-विलास म्ह बदल देवै सै। यीशु मसीह जो म्हारा एकमात्र माल्लिक अर प्रभु सै, वे उसका इन्कार करै सै।

उस बिश्वास खात्तर लड़ो जो एक बार खात्तर सौँप्या गया था --> कुछ माणस चोरी-छिपे भीत्तर घुस आए।

D. 2 पतरस 2:1 जिस तरियां इसाएली माणसां म्ह झूठे नबी थे, उस्से ढाळ थारे म्ह भी झूठे शिक्षक होंगे, वे थारे ताहीं चुपके तै झूठी शिक्षा सिखावेंगे, जिसकी बजह तै लोग मसीह पै बिश्वास नही करैगें, वे झूठे शिक्षक मसीह ताहीं अपना प्रभु नही मानैगें, जिसनै उन ताहीं मोल लिया सै, अर पाप की शक्ति तै आजाद करया सै, इस तरियां वे चाणचक अपने-आप ताहीं नाश कर लेवेंगें।

झूठे शिक्षक चुपके तै झूठी शिक्षा सिखावेंगे --> मसीह ताहीं अपना प्रभु नही मानैगें, जिसनै उन ताहीं मोल लिया सै।

E. 2 कुरिनथियों 11:13 क्यूँके इसे माणस झूठे प्रेरित, अर छळ तै काम करण आळे सै, अर मसीह के प्रेरित होण का झूठा दावा करै सै। (14) या किमे अचम्भे की बात कोनी क्यूँके शैतान खुद भी ज्योतिर्मय सुर्गदूत का रूप धारण करै सै।

झूठे प्रेरित, छलिया काम करण आळे --> शैतान खुद ए ज्योति के दूत का भेष धार लेवै सै।

(मेरे निजी विचार — प्रेरितां के अपने बखत म भी, माणस अन्दर घुसकै आगी अर उपदेश नै मरोड़ दिया करते। फेर आपणे बखत म तो और भी ज्यादा, जिब इतना सारा जो सिखाया जावै सै, वो नया सै, पुराणे वचन म उसकी कोए जड़ कोनी, अर उसनै सही ढंग तै नहीं संभाळा जावै। कोए बात सच कोनी हो जावै इस करके के घणखरे माणस उसनै मानै सै, अर ना ए इस करके के वा माणसां के मुंह म बहुत पुराणी सै। वा तभी सच सै जिब वा उसतै मेळ खावै जो सन्देशवाहकां नै सौँप्या था।)

2 तीमुथियुस 4:3 क्यूँके इसा बखत आवैगा जिब माणस खरयां उपदेश नही सह सकैगें, पर अपनी ए इच्छा पूरी करैगें अर वे अपने खात्तर कई उपदेशक कठे करैगें जो उपदेश वे सुणणा चाहवै सै उन ताहीं वे बतावेंगें। (4) अर वे सच्चाई नै अणदेखा कर देवेंगें, अर झूठी

कथा-कहानियाँ पै मन लगावेंगे।

वे खरे उपदेश नै सहन नहीं करेंगे --> अपनी इच्छावां के मुताबिक वे अपने खातर ढेर सारे गुरू जमा कर लेंगे, जिनके कान गुदगुदाणा चाहवें।

1 तीमुथियुस 4:1 पर पवित्र आत्मा साफ तौर पै कहवै सै, के अन्त के दिनां म्ह कुछ लोग मसीह शिक्षा ताहीं मानना छोड़ देवेंगे, वो ओपरी आत्मायाँ ताहीं अपणा लेवेंगे जो उन ताहीं भटका देवैगी, अर वो उस झूठी शिक्षा पै मन लगावेंगे जो ओपरी आत्मा की ओड़ तै सै।

पाछले समयां म्ह कुछ जन बिश्वास ते भटक जाँगे --> कुभटकाणीये आत्मायां और शैतानां की सीखां पर ध्यान लगाके।

(मेरे निजी विचार — और यही वो घड़ी है: वे माणस जो खरी शिक्षा को सहन नहीं करते, पर अपने खातर भीड़ के मुताबिक गुरू जमा कर लेवें हैं — जितने भी उनके कानां की खुजली मिटा सकें, अर उन्हें वो बताएं जो वे सुनणा चाहवें। कोई माणस गुरूआं का पूरा घर बना सकता है, जिसमें हरेक उसकी हामी भरे, अर हरेक गलत होवे। सच्चाई कदे भी बहुमत से सिद्ध नहीं होई, ना कदे उसके मानने वालां की गिनती नै सच्ची बणाया, अर ना कदे कान की खुशी खातर मोड़ी गई। सच्चाई तै मुँह मोड़ ले, अर तू मुड़ जावै है — वचन खुद यही कहवै है — कहानियां की तरफ।)

E. 2 तीमुथियुस 2:15 अपणे-आपनै परमेसवर का अपनाण जोगा अर इसा काम करण आळा बणाण की कोशिश कर, जो शर्मिन्दा न्ही होण पावै, अर जो सच के वचन नै सही ढाळ तै समझा सकै।

आपणे-आपको परमेश्वर के स्वीकार जोगा ठहराण खातर मेहनत कर --> सत्य के वचन नै सही तरियां तै बांट।

G. मत्ती 4:4 यीशु नै जवाब दिया: “पवित्र ग्रन्थ म्ह लिखा सै, ‘माणस सिर्फ रोटी तै ए न्ही, पर परमेसवर के हरेक वचन तै जो उसनै माने सै, जिन्दा रहैगा।’”

माणस अकेली रोटी तै न्ही जीवैगा --> बल्के हरेक उस बात तै जो परमेश्वर के मुँह तै लिंकड़े सै।

H. Proverbs 30:5

परमेश्वर का हर एक वचन शुद्ध है --> उसके वचनां म्ह कुछ मत मिलाईयो।

(मेरे निजी विचार — म्हें परमेसवर के वचनां म्ह तै अपनी मरजी सूँ छाँटण आळे कोनी सां, आसान आळे राख कै अर कठण आळे छोड़ कै। माणस हरेक वचन तै जीवै सै। उस म्ह कुछ जोड़ण या उस म्ह तै कुछ घटाण, याने उस परमेसवर के स्याम्ही झूठा ठहरणा सै जिसनै वो वचन कहा।)

XII. कूस पै चोर का उदाहरण

(मेरे निजी विचार — यो एक पत्थर सै जिसपै घणखरे लोग अपनी पूरी दलील टिकावै सै: वे कहवें सै के मरण आळे चोर नै बचाया गया, अर उसनै कदे बपतिस्मा न्ही लिया; इस करके बपतिस्मा जरूरी कोनी। आओ अबकी बार वचन कै उजाळे म्ह इसनै तोल कै देखां, अर देखां के यो असल म्ह किसपै टिका सै।)

A. लूका 23:40 इसपै दुसरे नै उस ताहीं धमका के कहा, “के तू परमेसवर तै भी कोनी डरदा? तू भी तो वाए सजा पा रया सै, (41) हम तो न्याय के मुताबिक सजा पारे सां, क्यूँके हम अपणे काम्मां की ठीक सजा पारे सां, पर उसनै कोए गलत काम न्ही करया।” (42) फेर उसनै कहा, “हे यीशु, जद तू अपणे राज्य म्ह आवै, तो मेरी खियास करिये।” (43) उसनै उस ताहीं कहा, “मै तन्नै सच कहूँ सूँ के आज तू मेरे गेल्या सुर्गलोक म्ह होगा।”

हमनै अपने करमां का उचित फल मिलता है --> प्रभु, मन्नै याद राखियो --> आज तू मेरे गेल्या स्वर्गलोक म्ह होगा।

B. मत्ती 3:5 फेर यरुशलेम नगर अर सारे यहूदिया परदेस अर यरदन नदी के लोवै-धोवै की सारी जगहां के माणस उसके धोरे आ गये।

(6) उन सारया नै अपणे-अपणे पापां नै मानके यरदन नदी म्ह उसतै बपतिस्मा लिया।

यरूशलेम + सारा यहूदिया + सारा जॉर्डन के आस-पास का प्रदेश --> उसनै अपणे पाप मान कै, उसतै बपतिस्मा लिया।

C. मरकुस 1:4 वो दूत यूहन्ना था, जो जंगल-बियाबान म्ह कहवै था, “पाप करणा छोड़ द्यो अर बपतिस्मा ल्यो परमेसवर थारे पाप माफ कर देगा।” (5) सारे यहूदिया परदेस के, अर यरुशलेम नगर के सारे बासिन्दे लिंकड़के उसके धोरे गए, अर अपणे पापां नै मानके यरदन नदी म्ह उसतै बपतिस्मा लिया।

यहूदिया का सारा देश + यरूशलेम के लोग --> सारे उसके द्वारा यरदन में बपतिस्मा लिये गये।

D. लूका 7:29 फेर हरेक किसे नै, उरै ताहीं के चुंगी लेण आळे माणसां नै भी यूहन्ना की बात सुणके उसतै बपतिस्मा लेके यो मान लिया के परमेसवर ए धर्मी सै। (30) पर फरीसियाँ अर शास्त्रियाँ नै यूहन्ना तै बपतिस्मा कोनी लेके परमेसवर के मनसां ताहीं अपणे बारै म्ह टाळ दिया।

हरेक किसे अर चुंगी लेण आळे माणसां नै बपतिस्मा लिया --> पर फरीसी अर शास्त्री, बपतिस्मा ना लेके, परमेसवर की सलाह नै ठुकरा दिया।

E. मत्ती 21:32 यो मै इस खातर कहूँ सूँ क्यूँके यूहन्ना बपतिस्मा देण आळा धर्म की राह दिखान्दे होए थारे धोरे आया, अर थमनै उसका बिश्वास कोनी करया; पर चुंगी लेण आळे अर बेश्यायाँ नै उसका बिश्वास करया अर थमनै न्यू देखके भी पाप करणा कोनी छोड़या अर ना ए उसका बिश्वास करया।”

चुंगी लेण वाले अर बेश्याएं नै उसकी बात मान ली।

F. यूहन्ना 4:1 फेर जब यीशु नै बेरा पाट्या के फरीसियाँ नै सुणया सै के यीशु यूहन्ना तै घणे चेल्लें बणावै सै अर उननै बपतिस्मा देवै सै। (2) (ऊतो यीशु खुद न्ही बल्कि उसके चेल्लें बपतिस्मा देवै थे)

यीशु नै यूहन्ना नाल्ली ज्यादा चले बणाए अर बपतिस्मा दिया।

(मेरे निजी विचार — अब चोर नै इस रोशनी म्ह तोल्यो। वचन कदे नही कहवै के वो बपतिस्मा-रहित था। यो तो लोग अपने-आप मान लेवें सै, अर फेर अपनी इस मान्यता पै सारा सिद्धांत खड़ा कर देवें सै। पर सुण के वचन के ASLI म्ह के कहवै सै: यरूशलेम, अर सारा यहूदिया, अर यरदन के आस-पास का सारा देश बाहर आया अर बपतिस्मा लिया, अपने पापां नै मान करके। आम लोग अर चुंगी लेण आळे बपतिस्मा लेग्ये। वेश्याएं नै बिश्वास करया। सिर्फ फरीसी अर शास्त्री ए मना करग्ये, अर बपतिस्मा नही लिया। चोर कोए फरीसी नही था — वो तो आम लोगों म्ह तै एक था, एक अपराधी, ठीक उससे किस्म का जो यूहन्ना के मन-फिराव के बपतिस्मे पै भीड़ लगाके आवें थे। अर क्रूस पै उसनै वोए काम करया जिसके खातर बपतिस्मा था: उसनै अपना पाप मान लिया — हम अपने करमां का फळ पावां सां। इसके साथै यो भी जोड़ लो के प्रभु के अपने चेल्यां नै यूहन्ना तै भी घणे ज्यादा लोगों नै बपतिस्मा दिया, उस सारे देश म्ह, तीन साल तै भी ज्यादा समय म्ह। तो सच्चाई उस बहाने के उल्टी सै: वचन म्हारे नै उस चोर कान्ही नही लेज्या जो कदे बपतिस्मा-रहित था, बल्के उस कान्ही लेज्या जिसनै सम्भावित रूप तै बाकी सारया के साथ बपतिस्मा लिया था। जो लोग उसपै टेक लगावें सै, वे तो एक पैहलाओड़े धोए होड़े माणस पै टेक लगारे सै।)

G. इब्रानियों 9:16 करार एक वसियत के समान हो सै। एक वसियत के नियम नै लागू करण खातर यो साबित करणा जरूरी होवै सै, के जिसनै वा वसियत बणाई हो, वो मर चुक्या हो। (17) क्यूँके एक वसियत जिब्बे लागू हो सकै सै, जिब उसके बणाण आळा की मौत होगी हो। वो जिब तक लागू नही होन्दी जिब ताहीं उसका बणाण आळा जिन्दा हो।

वसीयत आदमियां के मरण के बाद ही लागू होवै है --> जब तक वसीयत करण वाला जीवित रहवै, उसकी कोई ताकत नहीं होवै।

(मेरे निजी विचार — और मान लो सबसे बुरी बात, कि उसका बपतिस्मा कभी हुआ ही नहीं था: फेर भी वो तेरे खातर कोई नियम नहीं है। वो नई वाचा लागू होण से पहले मर गया। जब तक वाचा बणाणवाळा जिंदा रहवै, तब तक वसीयत का कोई बल नहीं होता, अर प्रभु अभी मरा नहीं था। इस करके चोर को उस तरियां स्वीकार करया गया जिस तरियां पुराने जमाने के लोग स्वीकार करे जाते थे, उस से पहले कि इस नई वाचा का द्वार कदी खोला ही गया हो। अर वो हाथ-पग सूं क्रूस पर ठोक्या गया था, अर बपतिस्मा लेण खातर नीचे नहीं आ सकता था। परमेश्वर मनुष्य सूं उस काम म आज्ञाकारिता चाहवै जो वो कर सकवे। एक मरणवाळे मनुष्य जो नहीं कर सक्या, वो एक जिंदा मनुष्य खातर कोई बहाना नहीं है जो कर सकवे। तू क्रूस पर ठोक्या नहीं गया; तू आज्ञा मान सकवे।)

H. मत्ती 7:26 पर जो कोए मेरी ये बात सुणै सै अर उनपै नही चाल्दा, वो उस बेकूफ माणस की ढाळ सै, जिसनै अपने घर की नीम बाळूरेत पै धरी। (27) अर मिह बरसया, बाढ़ आयी, आँधी चाल्ली, अर उस घर तै टकराई अर पड़के उसका सत्यानाश होग्या।”

सुणै सै अर करै कोनी --> अपना घर बाळू पै बणाया --> अर उसका पतन घणा बड़ा होया।

(मेरे निजी विचार — तो सारा बहाना एक इसे मान्यता पर टिक्या है जो वचन कदी नहीं कहवै। यह उस साफ प्रमाण के खिलाफ खड़ा है जो वचन देवै है। यह वो घर है जो बालू पर बण्या है, अर इसका पतन बड़ा होगा। पर हुकम चट्टान पर खड़ा है, अर वो हिल्या नहीं: पाप तै मन फिराओ, अर तुम म्ह तै हरेक जन बपतिस्मा ले।)

(मेरे निजी विचार — फेर भी इननै श्रद्धा सागी सुनियो, अर या मानके नहीं कि तनै सब कुछ पहली से समझ लिया। बहुत सारे मान बैठे अर गलत साबित होए। अर हम जो थारे तक ये बात पहुंचाण आले हां, वो या दावा नहीं करते के हमनै सब कुछ पता है। हम भी सीखणिया हां, अर वचन अर भेजे गए जनां की तरफ से सुधरण खात तैयार हां। पर जो सन्देशवाहकां नै साफ-साफ कह्या, उस म्ह हम फेरबदल करण की हिम्मत नहीं करते। सो खुद जांच लियो: जै हम गलत होवां, तो वचन ही हमनै सुधार दे। पर सावधान रहियो के प्रभु के मेम्बे के प्रेरितां की आवाज़ के ऊपर आदमियां की आवाज़ सुणके तम भरमा ना जावो। हम इस खास सवाल नै इसा गहराई सै देखां हां जिसा एक मिसाल के रूप म्ह, के तम फेर भी किसी बात नै मान सको भले ही बाइबल ऊपरी तौर पै दूसरी दिशा म्ह ज्यादा जोर देती लागे। म्हारे नै वचन नै ठीक तरियां सै बांटणा है: म्हारे नै इस म्ह कुछ जोड़णा नहीं अर कुछ घटाणा भी नहीं है।)

मसीह नै अपनाण की प्रार्थना

हे परमेश्वर, मेरे पर दया कर, मै पापी सूं। मन्त्रै सच सुण लिया सै, अर मेरा दिल छिद गया सै, अर मै तनै पूछूं सूं: मन्त्रै के करणा चाहिए? मै पूरे दिल तै बिश्वास करूं सूं के यीशु मसीह मेरे खातर मरया अर फेर जी उठ्या, अर मै अपने मुँह तै मानूं सूं के यीशु मसीह प्रभू सै। मै पश्चाताप करूं सूं — मै अपने पाप तै मुड़ के पूरे दिल तै तेरी ओड़ आऊं सूं। मै अपने पापां की माफी खातर उसके नाम म्ह बपतिस्मा लिऊं सूं, अर उसके गैल गाड़या जाऊं सूं, ताके नई जिंदगी जी सकूं। मन्त्रै अपनी पवित्र आत्मा तै भर दे, क्यूँके मसीह की आत्मा के बिना मै तेरा कोनी। मन्त्रै सम्भाळे रख: मेरी मदद कर के मै प्रेरितां की शिक्षा म्ह, रोटी तोड़ण म्ह, अर प्रार्थनावां म्ह लाग्या रहूं; मेरी मदद कर के मै मसीह गैल जुड़या रहूं जिस तरियां डाळी अंगूर की बेल गैल; मेरी मदद कर के मै अंत ताहीं बिश्वासयोग्य रहके सहन करूं। हे प्रभू, मन्त्रै बचा ले, अर मन्त्रै सारे रस्ते तक ले चाल। आमीन।

समापन

प्रकाशित वाक्य 2:10 जो दुख तन्नै झेलणे होंगे, उनतै मत घबरा, क्यूँके देखो, शैतान अपने माणसां के जरिये थारे म्ह तै कितन्यां ताहीं जेळखात्रे म्ह गेरैगा, ताके थम परखे जाओ, अर थारे ताहीं दस दिन तक कळेस ठाणा पड़ैगा। जान देण तक बिश्वासी रह, तो मै थारी जीत के कारण ईनाम के तौर पै थमनै अनन्त जिन्दगी देऊंगा।

तू मरण तक विश्वासी रह --> मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा।

अभ्यास प्रश्नोत्तरी

1. प्रेरितों के काम 2:42 — और वे प्रेरितों के उपदेश और संगति में लगे रहे,
 - a) और घर-घर जाकर रोटी तोड़ते हुए
 - b) परमेश्वर की स्तुति करते हुए, और सारे लोगों की नजर में अनुग्रह पाते हुए
 - c) और रोटी तोड़ण म्, और प्रार्थना करण म्
2. जो कोए हद पार करै, अर मसीह की शिक्षा में ना रहै —
 - a) के परमेश्वर नै न्ही
 - b) पिता अर बेटे दोनूं नै धारण करै सै
 - c) जीवन का मुकुट पावैगा
3. यूहन्ना 15:5 — मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो: जो मुझ म्ही बणा रहै सै, अर मैं उस म्ही, वोए बहुत फल ल्यावै सै:
 - a) और मैं उस नै आखरी दिन म् उठाऊँगा
 - b) क्योंकि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते
 - c) और वे कदी नाश नहीं होंगे
4. 1 यूहन्ना 2:1 — अर जै कोए पाप करै, तो हमारा पिता के साम्हने एक बकालतकर्ता है,
 - a) यीशु मसीह धर्मी
 - b) क्यूँके वो सदा जीवित रहके उनकी बिचोलगी करता है
 - c) सच्चाई की आत्मा
5. नीतिवचन 24:16 — क्योँके सज्जन सात बार पड़ै है,
 - a) उससे मूर्ख अपनी मूर्खता की ओड़ मुड़ जावै सै
 - b) और फेर उठ खड़ा होवै सै
 - c) फेर उस म् फंसकै हार जावै सै
6. गलातियों 1:8 — पर जो हम, या सुर्गे तै आया कोई सुर्गदूत, तुम्हारे कान्ही वा सुसमाचार तै भिन्न कोई और सुसमाचार सुणाए जो हमनै तुम्हारे कान्ही सुणाया है,
 - a) भरमाने वाली आत्माओं की बात मानकै
 - b) खुजली वाले कान वाले
 - c) वो शापित होवै
7. वसीयतनामा तभी तागतवर होवै सै —
 - a) जिब ताहीं वसीयत करण आळा जिन्दा रहवै
 - b) माणसां के मरण के पाछे
 - c) जिब वचन तेरे लोवै सै, तेरे मुँह म् भी

उत्तर कुंजी: 1-c · 2-a · 3-b · 4-a · 5-b · 6-c · 7-b

यूनानी मुख्य शब्द

“**1**गातार बण्या रहणा” — **G4342 proskartereo** — सतत जारी रहणा; इन्तजार करणा; लगातार खुद ल्याम्मण करणा
चार बात जिनमें पहली कलीसिया लगी रही: प्रेरितां का उपदेश, संगति, रोटी तोड़णा, अर लोवणी।

“**र**हणा” — **G3306 meno** — रहणा; ठैरणा; बसणा; लागे रहणा
डाळी तब ए फळ पैदा करै सै, जब ताहीं वा बेल म् जुड़ी रहवै सै।

“**स**हन करणा” — **G5278 hupomeno** — सहन करणा; भार ठाणा; धीरज धरणा
जो कोई अंत ताई वफादार बण्या रहे, वो बचाया जावैगा।

SOURCES & CREDITS

Scripture: Haryanvi Bible (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).